

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन ने ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के खास अपग्रेड्स के लिए 7.3 मिलियन डॉलर का फेडरल और प्रोविंसियल निवेश सुरक्षित किया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (17 मई, 2021) – आज, मेयर पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown); ब्रैम्पटन सिटी काउंसलर्स; फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटीज, माननीय कैथरीन मकैना (Catherine McKenna) की ओर से, मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिवेलपमेंट के लिए पार्लियामेंटी सेक्रेटरी और ब्रैम्पटन ईस्ट के लिए मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, मनिंदर सिद्धु (Maninder Sidhu); ओनटैरियो के मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, माननीय लॉरी स्कॉट (Laurie Scott) की ओर से, एसोसिएट मिनिस्टर ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड रेड टेप रिडक्शन और ब्रैम्पटन साउथ के लिए मेम्बर ऑफ प्रोविंसियल पार्लियामेंट, माननीय प्रबमीत सरकारिया (Prabmeet Sarkaria) ने, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit) फ्लीट में बसों पर कंप्यूटर ऐडिड डिस्पैच (Computer Aided Dispatch) और ऑटोमैटिक व्हीकल लोकेशन (Automatic Vehicle Location) सिस्टम्स की रिप्लेसमेंट के लिए संयुक्त फंडिंग की घोषणा की।

कैनेडा सरकार, *इन्वेस्टिंग इन कैनेडा (Investing in Canada)* प्लान की पब्लिक ट्रांज़िट इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रीम (पी.टी.आई.एस.) (Public Transit Infrastructure Stream) (PTIS) के द्वारा, इस प्रोजेक्ट में 4 मिलियन डॉलर का निवेश कर रही है। ओनटैरियो सरकार, 3.3 मिलियन डॉलर प्रदान कर रही है और सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, 2.6 मिलियन डॉलर का योगदान दे रही है।

इस प्रोजेक्ट में सभी सहायक डिवाइसों, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और नेटवर्किंग गियर तथा कंप्यूटर ऐडिड डिस्पैच और ऑटोमैटिक व्हीकल लोकेशन सिस्टम्स के सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन, निर्माण और इंस्टॉलेशन शामिल हैं। इन रिप्लेसमेंट सिस्टम्स को 450 बसों पर इंस्टॉल किया जाएगा। इस काम में इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (Interactive Voice Response), डेटा रेडियो नेटवर्क, टर्मिनल्स और स्टेशन शॉप्स पर 130 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड और ऑटोमैटिक पेसेंजर काउंटर्स वाली आउटफिटिंग बसों सहित, सबसिस्टम्स का कार्यान्वयन और एकीकरण भी शामिल है।

इन नए सिस्टम्स की वृद्धि, डेटा विश्वसनीयता, संचालन संबंधी ट्रैकिंग, सिस्टम कैपेसिटी और परफॉर्मेंस में सुधार करेगी, जिससे ब्रैम्पटन को बेहतर गुणवत्ता वाला और अधिक सुरक्षित पब्लिक ट्रांज़िट सिस्टम मिल पाएगा।

लिंक

- [ब्रैम्पटन के निवासियों के लिए संशोधित पब्लिक ट्रांज़िट में कैनेडा और ओनटैरियो का निवेश \(Canada and Ontario invest in improved public transit for residents of Brampton\)](#)

हवाले

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, हमारे पब्लिक ट्रांज़िट सिस्टम्स में इस खास निवेश का स्वागत करती है। ब्रैम्पटन ट्रांज़िट, कैनेडा में सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाले ट्रांज़िट सिस्टम्स में से एक है। अपडेट की गई डिस्पैच और व्हीकल लोकेशन संबंधी तकनीकें, ब्रैम्पटन में पब्लिक

ट्रांज़िट की रियल-टाइम में जानकारी, गुणवत्ता और सुरक्षा में बहुत वृद्धि करेंगी। मैं ब्रैम्पटन में निवेश लाने के लिए, सरकार के सभी महकमों के साथ काम करना जारी रखने के लिए उत्साहित हूँ।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन एक स्वस्थ और सुरक्षित शहर है, साथ ही यह अच्छी-तरह संचालित शहर है। यह महत्वपूर्ण निवेश सुनिश्चित करेगा कि हमारा ट्रांज़िट सिस्टम आधुनिक, प्रभावशाली और अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हम यह सुनिश्चित करना जारी रखेंगे कि ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के पास हमारी कम्युनिटी में हर किसी के लिए उसके रोजमर्रा के कामों, सुरक्षा और विकास में मदद के लिए, सबसे अधिक अप-टू-डेट तकनीकें हैं। हमारे सरकारी साझेदारों, स्टाफ और स्टैकहोल्डर्स का धन्यवाद, जिन्होंने इसे संभव बनाया है।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी का स्टाफ, ब्रैम्पटन में निवेश लाने के लिए हमारे साझेदारों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। जब हम ब्रैम्पटन ट्रांज़िट पर इन डिवाइसों और सिस्टम्स को रिप्लेस, लागू और एकीकृत करेंगे तो हमारे फ्लीट और कम्युनिटी को इससे बहुत फायदा होगा।”

- डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“आज का निवेश, डेटा विश्वसनीयता, और संचालन संबंधी ट्रेकिंग तथा क्षमताओं को अपग्रेड करके, ब्रैम्पटन के पब्लिक ट्रांज़िट इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि आने वाले वर्षों के लिए निवासियों की, बढ़िया किस्म के और सुरक्षित पब्लिक ट्रांज़िट विकल्पों तक पहुंच लगातार पहुंच बनी हुई है। कैनेडा का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, हजारों प्रोजेक्ट्स में निवेश करता है, पूरे देश में नौकरियां पैदा करता है और अधिक साफ तथा अधिक भागीदारी वाली कम्युनिटीज बनाता है।”

- मनिंदर सिद्धु (Maninder Sidhu), मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिवेलपमेंट के लिए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और ब्रैम्पटन ईस्ट के लिए मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटीज, माननीय कैथरीन मकैना (Catherine McKenna) की ओर से

“विकासशील शहर के तौर पर, ब्रैम्पटन को सुरक्षित, स्मार्ट और सुलभ ट्रांज़िट की जरूरत है, ताकि हमारे निवासी, हमारी कम्युनिटी में आसानी से इधर-उधर जा पाएं। यह निवेश, हमारी कम्युनिटी के लिए आधुनिक, प्रभावशाली और कुशल ट्रांज़िट बनाना जारी रखने के लिए है—ताकि ब्रैम्पटन के मेहनती परिवार, आगे बढ़ने का हर अवसर हासिल कर पाएं।”

- माननीय प्रबमीत सरकारिया (Prabmeet Sarkaria), एसोसिएट मिनिस्टर ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड रेड टेप रिडक्शन और ब्रैम्पटन साउथ के लिए मेम्बर ऑफ प्रोविसियल पार्लियामेंट, ओनटैरियो के मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, माननीय लॉरी स्कॉट (Laurie Scott) की ओर से

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

शैंटेल ऑबर्टिन (Chantalle Aubertin)

प्रेस सेक्रेटरी

ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटीज

613.941.0660 | chantalle.aubertin@canada.ca

क्रिस्टीन बुजोल्ड (Christine Bujold)

प्रेस सेक्रेटरी

ऑफिस ऑफ माननीय लॉरी स्कॉट, ओनटैरियो के मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर

416.454.1782 | christine.bujold@ontario.ca

सोफिया सूजा-डियास (Sofia Sousa-Dias)

कम्युनिकेशन्स ब्रांच

ओनटैरियो मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर

437.991.3391 | sofia.sousa-Dias@ontario.ca

मीडिया रिलेशन्स

इंफ्रास्ट्रक्चर कैंनेडा

613-960-9251

टोल फ्री: 1.877.250.7154

ईमेल: infc.media.infc@canada.ca

हमें [Twitter](#), [Facebook](#) और [Instagram](#) पर फॉलो करें

वेबसाइट: [Infrastructure Canada](#)